

प्रेस नोट दिनांक 25-09-2020 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

शातिर मोबाइल चोर हुए गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री जगत नारायण सिंह के निकट मार्गदर्शन में वाहन व अपराधियों की चेकिंग में पुलिस टीम क्षेत्र में मामूर थी कि जरिए मुखबीर खास पुलिस टीम को सूचना मिली की दो व्यक्ति चोरी की मोबाईल लिए आन्ध्रा बैंक मालहनपार के आगे मालहनपार उरुवा मुख्य मार्ग से बेल्दारीपुर जाने वाले तिराहे पर खड़े है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर उ 0नि0 अम्बरीश बहादुर व उ 0नि0 जयराम सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स व मुखबीर खास के मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर से बेल्दारीपुर जाने वाले तिराहे पर खड़े दो व्यक्तियों की तरफ इशारा किया जिसे पुलिस टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर मौके पर ही 10-15 कदम की दूरी पर जाते जाते पकड़ लिया गया। जिन्होंने अपना नाम अमन दुबे s/o शेषमणी दुबे R/O सहुआपार थाना उरुवा जिला गोरखपुर बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने हुए पैन्ट की दाहिने जेब से एक अदद मोबाईल VIVO कम्पनी गोल्डन कलर पिछला कवर टुटा हुआ। जिसका EMI नम्बर अज्ञात व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल कुमार S/O जय प्रकाश पाल R/O बेल्दारीपुर निबिया थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर बताया जिसकी जामा तलाशी मे पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से 03 अदद मोबाइल व वाए जेब से 02 अदद मोबाइल क्रमशः (1) VIVO कम्पनी काला रंग EMI नम्बर 860408036141574,860408036141566 (2) VIVO कम्पनी काला निला स्क्रीन टूटी हुई (3) OPPO कम्पनी काला रंग (4) सैमसंग कम्पनी गोल्डन कलर (5) OPPO कम्पनी सिल्वर कलर बरामद हुआ। जिन्हें कारण गिरफ्तारी बताते हुए 21.00 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही कर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 638/2020 धारा 41/411 भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर नाम पता अभियुक्तगण-

1. अमन दूबे पुत्र शेषमणी दूबे निवासी सहुआपार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
2. विशाल कुमार पुत्र जयप्रकाश पाल निवासी ग्राम बेलदारीपुर निबिया थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 24/9/2020 समय 21.00 बजे गिरफ्तारी का स्थान – बेलदारीपुर तिराहा

बरामदगी-

1. VIVO कम्पनी काला रंग EMI नम्बर
860408036141574,860408036141566
2. VIVO कम्पनी काला निला स्क्रीन टूटी हुई
3. OPPO कम्पनी काला रंग
4. सैमसंग कम्पनी गोल्डन कलर
5. OPPO कम्पनी सिल्वर कलर बरामद हुआ ।
6. VIVO कम्पनी गोल्डन कलर पिछला कवर टुटा हुआ। जिसका EMI नम्बर अज्ञात है।

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. उ0नि0 अम्बरीश बहादुर
2. उ0नि0 जयराम सिंह
3. आरक्षी रोहितनाथ
4. आरक्षी राजेश कुमार शाह